

HP Board of School Education Dharamshala
Model Question Paper (2024-25)
+1 Business Studies (व्यावसायिक अध्ययन)

(Part A:- Foundations of Business and Part B:- Corporate Organisation, Finance and Trade)

Time Allowed : 3Hrs

Max.Marks: 60

नोट (Note) :-

1. All questions are compulsory.
2. This Question Paper contains five sections A, B, C, D & E. each section is compulsory.
3. Section A has (12) MCQ's questions of 1 mark each i.e.Q. 1 to Q. 12.
4. Section B has (06) Very Short answer questions of 2 marks each i.e. Q.13 to 18.
5. Section C has (05) short answer questions of 3 marks each i.e. Q.19 to Q. 23.
6. Section D has (04) Long answer questions of 4 marks each i.e. Q.24 to Q. 27.
7. Section E has (01) very long answer question of 5 marks i.e Q. 28.
8. Answers should be brief and according to marks allotted.

(भाग-अ) Section –A

बहु विकल्पीय प्रश्न Multiple Choice Question (12x1 =12 Marks)

Q.1 ई-कॉमर्स के अंतर्गतको सम्मिलित नहीं किया जाता।

- (a) एक व्यवसाय का पूर्तिकर्ताओं से संबंध (b) एक व्यवसाय का अपने ग्राहकों से संबंध
(c) एक व्यवसाय के विभिन्न विभागों के मध्य संबंध (d) एक व्यवसाय की दूरस्थ स्थानों पर फैली इकाइयों के मध्य संबंध
e-Commerce does not include.....
(a) A business's interactions with its suppliers (b) A business's interactions with its customers
(c) Interaction among the various departments within the business
(d) Interactions among the geographically dispersed units of the business

Q.2 औद्योगिक वित्त निगम का उदाहरण है : –

- (a) सार्वजनिक निगम (b) सरकारी कम्पनी (c) विभागीय उपक्रम (d) इनमें से कोई नहीं।

Industrial Finance Corporation is an example of:

- (a) Public Corporation (b) Government company (c) Departmental Undertaking (d) None of these.

Q.3. मि० अनुरंजन शर्मा एक संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय में 'कर्ता' है। उसके ऊपर न केवल निर्णय लेने व प्रबंध करने के उत्तरदायित्व का बोझ है बल्कि

वह असीमित दायित्व की हानियों से भी पीड़ित है। व्यवसाय के ऋणों को चुकाने के लिए उसकी निजी संपत्ति का भी उपयोग किया जा सकता है।

यहां बताई गई 'संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय' की सीमा को पहचानिए:

- (a) सीमित संसाधन (b) कर्ता का असीमित दायित्व (c) कर्ता का प्रभुत्व (d) सीमित प्रबंध कौशल

Mr. Anuranjan sharma is the 'Karta' of a joint hindu family business. He is burdened no with the responsibility of decision making and management of business, but suffers from the disadvantage of having unlimited liability. Personal property of Mr. Anuranjan can be used to repay business debts.

Identify the limitation of Joint Hindu Family Business mentioned here:

- (a) Limited resources (b) Unlimited liability of Karta (c) Dominance of Karta (d) Limited managerial skills

Q.4. एक नौकरानी हमारे परिवार के लिए खाना पका रही है और एक किसान अपने खेतों में हल चला रहा है।

उपरोक्त व्यक्तियों द्वारा संचालित क्रियाओं की पहचान कीजिये:-

- (a) रोजगार (b) व्यवसाय (c) पेशा (d) आर्थिक क्रिया

A maid cooking food for our family and a farmer ploughing his fields .

Identify the above activities conducted by the above persons:-

- (a) Employment (b) Business (c) Profession (d) Economic Activities.

Q.5. सार्वजनिक कंपनी के गठन में चरण निम्नलिखित क्रम में हैं-

- (a) संवर्धन, व्यवसाय का प्रारंभ, समामेलन, पूंजी अभिदान (b) समामेलन, पूंजी अभिदान, व्यवसाय का प्रारंभ, संवर्धन ।
(c) संवर्धन, समामेलन, पूंजी अभिदान, व्यवसाय का प्रारंभ। (d) पूंजी अभिदान, संवर्धन, समामेलन, व्यवसाय का प्रारंभ।

Stages in the formation of a public company are in the following order-

- (a) Promotion, Commencement of Business, Incorporation, Capital Subscription
(b) Incorporation, Capital Subscription, Commencement of Business, Promotion .
(c) Promotion, Incorporation, Capital Subscription, Commencement of Business.
(d) Capital subscription, Promotion, Incorporation, Commencement of Business.

Q.6 कॉलम-I में दिए गए 'बीमा के सिद्धांतों' का कॉलम-II में दिए गए उनसे संबंधित कथनों से मिलान कीजिए:

कॉलम-I

- A. क्षतिपूर्ति का सिद्धांत
B. अधिकार समर्पण का सिद्धांत
C. हानि को न्यूनतम करने का सिद्धांत

कॉलम-II

- (i) बीमाधारी को विवेकशीलता का परिचय देना चाहिए।
(ii) क्षतिग्रस्त संपत्ति बीमाकर्ता को हस्तांतरित हो जाती है।
(iii) इसका संबंध जीवन बीमा के अतिरिक्त सभी प्रकार के बीमा से है ।

Match the 'Principles of Insurance' in Column- I with their respective statement Column-II.

Column- I

- A. Principle of Indemnity
B. Principle of Subrogation
C. Principle of Mitigation of loss

Column-II

- (i) The insured must behave with great prudence.
(ii) The damage property passes on to the insurer.
(iii) It is related to all type of insurance other than life insurance.

- (a) A-(ii), B-(i), C-(iii)
(b) A-(i), B-(ii), C-(iii)
(c) A-(iii), B-(i), C-(ii)
(d) A-(iii), B-(ii), C-(i)

Q.7. कॉलम-1 में दिए गए 'सहकारी समितियों के प्रकारों' का कॉलम-II में दिए गए उनसे संबंधित उद्देश्यों से मिलान कीजिए:

कॉलम-1

- A. उपभोक्ता सहकारी समिति
B. विपणन सहकारी समिति
C. उत्पादक सहकारी समिति

कॉलम-II

- (i) मध्यस्थों को हटाना।
(ii) छोटे उत्पादकों की सौदा करने की शक्ति को बढ़ाना।
(iii) उत्पादों के लिए एक अनुकूल बाजार सुरक्षित करना।

Match the 'Types of Co-operative Societies' in Column-I with their respective aim in Column-II.

Column-1

- A. Consumer's Co-operative Society
B. Marketing Co-operative Society
C. Producer's Co-operative Society

Column-II

- (i) Eliminating middlemen.
(ii) Enhancing the bargaining power of small producers.
(iii) Securing a favourable market for the products.

- (a) A - (i) B - (ii) C - (iii)
(b) A - (i) B - (iii), C - (ii)
(c) A - (ii), B - (i), C - (iii)
(d) A - (ii) B - (iii), C - (i)

Q.8. निम्न कथनों- 'अभिकथन-A व कारण-R' को पढ़ें। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही का चयन करें:

अभिकथन (A): व्यवसाय के कानूनी उत्तरदायित्व की अपेक्षा सामाजिक उत्तरदायित्व अधिक विस्तृत होता है।

कारण (R): कानूनी उत्तरदायित्व को तो केवल कानूनी बातों का पालन करने के लिए पूरा किया जाता है जबकि सामाजिक उत्तरदायित्व में समाज के हितार्थ वे तत्व निहित हैं जिन्हें व्यवसायी स्वेच्छा से करते हैं।

विकल्प :

(a) अभिकथन-A व कारण-R दोनों सत्य हैं और R, A की सही व्याख्या है।

(b) अभिकथन-A व कारण-R दोनों सत्य हैं और R, A की सही व्याख्या नहीं है।

(c) अभिकथन-A सत्य है लेकिन कारण-R असत्य है।

(d) अभिकथन-A असत्य है लेकिन कारण-R सत्य है।

Read the following statements-Assertion (A) and Reason (R). Choose one of the correct alternatives given below:

Assertion (A): Social responsibility is broader than legal responsibility of business.

Reason (R): Legal responsibility may be fulfilled by mere compliance with the law while social responsibility involves an element of voluntary action on the part of business people for the benefit of society.

Options :

(a) Both Assertion (A) and Reason (R) are true and Reason (R) is the correct explanation of Assertion (A).

(b) Both Assertion (A) and Reason (R) are true and Reason (R) is not the correct explanation of Assertion (A).

(c) Assertion (A) is true but Reason (R) is false.

(d) Assertion (A) is false but Reason (R) is true.

Q.9. भारत की आयात की प्रमुख वस्तु कौन सी है ?

(a) आयुर्वेदिक दवाईयां (b) मशीनरी (c) पेट्रोल उत्पाद (d) मोती और बहुमूल्य उत्पाद

Which is the India's major item of Import?

(a) Ayurvedic Medicines (b) Machinery (c) Petrol Products (d) Pearls and Precious products

Q.10. कारीगरों को अवसर निम्न में से कौन प्रदान करता है ?

(a) कंपनी (b) बड़े पैमाने के व्यवसाय (c) छोटे व्यवसाय (d) उपरोक्त में से कोई नहीं ।

Which of the following provides opportunity for artisan?

(a) Company (b) Large scale business (c) Small business (d) None of the above.

Q.11. 'उत्पादक → थोक व्यापारी → फुटकरव्यापारी → उपभोक्ता'----- का उदाहरण है।

(a) फुटकर व्यापार (b) थोक व्यापार (c) अप्रत्यक्ष व्यापार (d) प्रत्यक्ष व्यापार

Producer → Wholesaler → Retailer → Consumer is the example of

(a) Retail trade (b) Wholesale trade (c) Indirect trade (d) Direct trade

Q.12 कमला फूड्स लि० प्रायः अपनी पूरी आय को अशधारियों में लाभांश के रूप में नहीं वितरित करती। वह हमेशा शुद्ध आय के एक भाग को

व्यवसाय में भविष्य में वित्त के एक स्रोत के रूप में प्रयोग करने के लिए संचित कर लेती है। यह कंपनी का आंतरिक वित्त का स्रोत बन जाता है।

इसके लिए उपलब्ध लाभ का भाग कई तत्वों पर निर्भर करता है, जैसे- शुद्ध लाभ, लाभांश नीति एवं संगठन की आयु।

कंपनी द्वारा प्रयोग किए जाने वाले वित्त के स्रोत का नाम बताइए:

(a) व्यापारिक साख (b) जन निक्षेप (c) ऋणपत्र (d) प्रतिधारित लाभ

Kamla Foods Ltd. generally does not distribute all its earnings among the shareholders as dividend. It always retains a portion of the net earnings for use in the future as a source of finance. It becomes a source of internal financing for the company. The portion of profit available for it, depends on many factors like net profits, dividend policy and age of the organisation.

Name the source of finance used by the company:

(a) Trade Credit (b) Public Deposits (c) Debentures (d) Retained Earning

खंड - ब (Section -B)

अति लघु उत्तरीय प्रश्न - Very Short Answer Questions (6x2=12 Marks)

Q.13 दीर्घकालीन वित्त जुटाने के चार स्रोतों के नाम लिखो।

Write the Name four sources of raising long term finance.

Q.14 श्री शांति लाल ने अपना जीवन बीमा करवाते समय बीमा कंपनी से अपनी बीमारी के कुछ तथ्यों को छिपाया, इसमें बीमा के किस सिद्धांत

की अवहेलना की गई है, उस सिद्धांत की व्याख्या करें।

Mr. Shanti Lal hides some particular disease of his, from the Insurance Co. while getting his life insurance done.

Here, which Insurance Principle is being. ignored. Explain that principle of insurance.

Q.15 क्या व्यवसाय में लाभ कमाना जरूरी है? यदि जरूरी है तो क्यों ?

Is it important to make profit in business? If necessary then why?

Q.16 लघु उद्योगों के सामने आने वाली किन्हीं दो समस्याओं पर चर्चा करें।

Discuss any two problems faced by small scale industries.

Q.17 विभागीय उपक्रम का अर्थ लिखें।

Write the meaning of departmental undertakings.

Q.18 साझेदारी से आप का समझते हैं ?

What do you understand by partnership?

खंड - स (Section -c)

लघु उत्तरीय प्रश्न Short Answer Questions (5x3=15 Marks)

Q.19 व्यवसाय मूलतः एक सामाजिक संस्था है, न कि केवल लाभ कमाने वाली गतिविधि स्पष्ट व्याख्या कीजिये।

'Business is essentially a social institution and not merely a profit making activity'. Explain.

Q.20 पेशा व रोजगार में कोई तीन अन्तर दीजिए।

Give any three difference between Profession and Employment.

Q.21. बहुराष्ट्रीय कम्पनियों की किन्हीं तीन सीमाओं का वर्णन कीजिए।

Explain any three limitation of multinational companies.

Q.22 सहकारी संगठन की विशेषताओं का वर्णन कीजिए।

Explain the features of co-operative organisation.

Q.23 अंशों व ऋण पत्रों में से सुरक्षा की दृष्टि से कौन ज्यादा सुरक्षित है, इसके तीन कारण बताइये।

Which is more secure between share and debenture on the security point. Give three reason.

खंड- द (Section -D)

दीर्घ उत्तरीय प्रश्न Long Answer Questions (4x4=16 Marks)

Q.24 एक फुटकर शोरूम चलाए बिना ग्राहकों को वस्तुएँ बेचने के विभिन्न विकल्प क्या हैं?

What are the different options of selling goods to customers without owning a retail showroom?

Q.25 "जीवन बीमा में सुरक्षा तथा विनियोग दोनों तत्व निहित होते हैं।" इस कथन का वर्णन कीजिए।

"Life Insurance involves protection as well as investment." Explain this statement.

Q.26 ई- बिजनेस के क्षेत्र की व्याख्या करें।

Explain the Scope of e-Business .

Q.27 पार्षद सीमा नियम व पार्षद अन्तर्नियमों में कोई चार अन्तर बताइए ।

Explain any four difference between Memorandum of Association and Articles of Association.

अथवा (OR)

प्रवर्तन से आप क्या समझते हो ? प्रवर्तकों के कार्यों का वर्णन कीजिए।

What do you mean by Promotion? Explain the functions of the promoters.

खंड-इ (Section-E)

अति दीर्घ उत्तरीय प्रश्न Very long Answer Questions(1x5=5 Marks)

Q.28 रव्या प्राइवेट लिमिटेड को रेडीमेड गारमेंट्स के निर्यात का ऑर्डर मिला है, निर्यात ऑर्डर को पूरा करने के लिए कंपनी को क्या कदम उठाने

होंगे?

Ravya Private Ltd.' has received an order for export of readymade garments. What steps must be followed by the company to meet the export order

अथवा (OR)

किसी देश की अर्थव्यवस्था में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के महत्व का मूल्यांकन कीजिए।

Evaluating the importance of international trade in a country's economy?

Design of Model Question Paper (Blue Print)

+1 Business Studies (2024-25)

Unit	Name of the unit	1 Mark MCQ	2 Marks	3 Marks	4 marks	5 Marks	Total Marks
1.	Business, Trade and Commerce	1	1	1			6
2	Forms of Business Organisations	2	1	1			7
3	Private ,Public and Global Enterprises	1	1	1			6
4	Business Services	1	1		1		7
5	Emerging Modes of Business	1			1		5
6	Social Responsibility of Business and Business Ethics	1		1			4
7	Formation of a company	1			1 choice		5
8	Sources of Business Finance	1	1	1			6
9	MSME and Business Entrepreneurship	1	1				3
10	Internal Trade	1			1		5
11	International Business	1				1 choice	6
	Total	12	6	5	4	1	60 Marks

Unit wise distribution of Marks

+1 Business Studies (2024-25)

Part A Unit	Foundations of Business	Marks
1	Business, Trade and Commerce (1+2+3)	06
2	Forms of Business Organisations (1+1+2+3)	07
3	Private ,Public and Global Enterprises (1+2+3)	06
4	Business Services (1+2+ 4)	07
5	Emerging Modes of Business (1+4)	05
6	Social Responsibility of Business and Business Ethics (1+3)	04
	Total of Part –A	35 Marks
Part B Unit	CORPORATE ORGANIZATION, FINANCE AND TRADE	
7	Formation of a company (1+ 4 Choice)	05
8	Sources of Business Finance (1+2+3)	06
9	MSME and Business Entrepreneurship (1+2)	03
10	Internal Trade (1+4)	05
11	International Business (1+5 Choice)	06
	Total of Part –B	25 Marks
Part C	Project Work	
(i)	Initiative, cooperativeness and participation	02
(ii)	Creativity in presentation	02
(iii)	Content, observation and research work	04
(iv)	Analysis of situations	04
(v)	Viva	08
	Total of Part – C	20 Marks
Part D	Internal Assessment (INA)	20 Marks
	Grand Total:- Part(A+B+C+D)	100 Marks